

DATED : 13.09.2018

सितंबर के पहले पखवाड़े में ही बरसी औसत से ज्यादा बारिश पिछले दस दिन में अच्छा लो प्रेशर डवलप होने से जमकर बरसा मानसून

भास्कर न्यूज़ | जयपुर

प्रदेश में इस बार मानसून के जून, जुलाई और अगस्त माह में ही औसत से कम बारिश हुई, लेकिन सितम्बर माह के दस दिनों से जमकर बरसात हो रही है इसका कारण यह रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून अंतिम चरण में अच्छे लो प्रेशर एरिया के साथ एंटी कर रहा है। मजबूत लो प्रेशर एरिया सिस्टम डवलप होने से राज्य के पूर्व जिलों में मानसूनी बादलों को बरसने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिली बादल इन इलाकों में जम से गए और बारां, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली में औसत से ज्यादा पानी बरसा।

तीन माह इसलिए कम बरसे बादल

बीते पांच साल में ऐसा तीसरी बार हुआ है कि जब अगस्त में सबसे कम बरसात हुई है। जून और जुलाई में भी मानसून उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई। जबकि इन तीनों माह में ही कई बार घने बादल तो छाए और मौसम विभाग ने भी इस दौरान भारी बारिश होने संभावना भी जताई, लेकिन बादल बरसे नहीं। सावन तो पूरा ही सूखा गुजर गया। इसका कारण यह रहा है कि अरब सागर से उठने वाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी की तरफ से देश में एंटी ली और उड़ीसा, बिहार, यूपी और मध्यप्रदेश में ही बरस कर रहा गया और राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते लो प्रेशर एरिया डवलप नहीं होने से यहां औसत से भी कम बरसात हुई।

बीसलपुर बांध में 5 सेमी पानी की आवक



राजमहल | बीसलपुर बांध के कनिष्ठ अभियन्ता दिनेश बैरवा ने बताया कि बीसलपुर बांध के जलयहण क्षेत्र व आस पास के क्षेत्र में हुई बारिश से बुधवार को बांध के जलस्तर में 5 सेमी पानी की आवक दर्ज की गई। जिससे बांध का जलस्तर बुधवार को 309.48 आरएल मीटर दर्ज किया गया है। त्रिवेणी का जलस्तर कम होकर 1.50 मीटर चल रहा है।

अरावली पर्वतमाला व पश्चिमी हवाएं बनाती है लो प्रेशर एरिया

प्रदेश में पश्चिम की ओर से चलने वाली गर्म हवाएं मानसूनी बादलों को आगे बढ़ने से रोकती हैं और मानसूनी बादल अरावली पर्वतमाला से पहले ही रह जाते हैं। इस दौरान जब बादलों को अच्छी नमी मिलती है तो पूर्वी राजस्थान में लो प्रेशर एरिया डवलप होता है और बादल जमकर बरसते हैं।

बीते दस दिन में हुई 69.42 मिमी बारिश : 1 से 15 सितम्बर तक में प्रदेश में औसत बारिश का आंकड़ा 64.6 मिमी है जबकि इस बार मजबूत मानसून सिस्टम डवलप होने से अब तक 69.42 मिमी बारिश हो चुकी है।

सितम्बर में मजबूत लो प्रेशर एरिया डवलप होने से अच्छी बरसात हुई। जबकि पहले सिस्टम तो बना, लेकिन राजस्थान तक आते आते बादल कमजोर पड़ गए या ऐसा माने कि लो प्रेशर एरिया नहीं बनने से बारिश नहीं हो पाई।

-शिव गणेश, डायरेक्टर मौसम विभाग, जयपुर